



केन्द्रिय कारा बेऊर, पटना, बिहार

बेऊर कारा में कैदियों के सुधार हेतु कार्यक्रम

❖ कारा प्रशासन ने बेऊर में लगाया जनता दरबार

आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर में कैदियों के लिये जनता दरबार का आयोजन कारा प्रशासन का एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। जिन कैदियों को कारा प्रशासन से किसी तरह की शिकायत थी उन्हें जनता दरबार में आने को कहा गया। बहुत सारे कैदियों ने अपनी फरियाद दरबार में रखी। काराधीक्षक ने अधिकांश शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कारा प्रशासन के इस कदम से कैदियों को सुधार के रास्ते पर लाया जा सकता है एवं उनके मन में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा किया जा सकता है।



❖ कैदियों के हाथ में होंगे कूची

बेउर जेल के कैदियों को अब चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कदम भी कैदियों के सुधार के लिये उठाया हुआ एक सराहनीय कदम है।

❖ अब कैदी भी चलायेंगे माउस

गोली-बंदूक पकड़ने वाले हाथों में बेउर जेल प्रशासन के द्वारा अब "माउस" पकड़ाया जा रहा है। आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर के कैदियों को अब कम्प्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जायेगी। डी०ए०वी० स्कूल प्रबन्धक ने इसके लिए बेउर कारा को 10 कम्प्यूटर दिये हैं। कारा में पहले से भी 4 कम्प्यूटर हैं।

इस तरह के कार्यक्रम से कैदियों को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। ऐसी ट्रेनिंग पाकर उन्हें अपने जीवकोपार्जन के लिए गलत एवं असंवैधानिक कार्यों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वे अगर चाहें तो इसे ही अपने जीवन का सहारा बना सकते हैं। अतः ऐसे सुधार कार्यक्रम राज्य के सभी जेलों में चलनी चाहिये।